

# **भारत का राजपत्र** **The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

० 461] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 1968/अग्राहायना 14, 1890

No. 461] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 1968/AGRAHAYANA 14, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह आसग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

*New Delhi, the 5th December 1968*

**S.O. 4381.**—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri A. Nesamony, a member elected to that House from Nagercoil Parliamentary Constituency in the State of Madras.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 11th January, 1969, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the said vacancy.

[No. 100/MD/HP/1/68(1).]

**S.O. 4382.**—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in the Nagercoil Parliamentary Constituency in the State of Madras in pursuance of its notification No. 100/MD/HP/1/68(1), dated the 5th December, 1968:—

- (a) the 12th December, 1968, as the last date for making nominations;
- (b) the 13th December, 1968, as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 16th December, 1968, as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 8th January, 1969, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 11th January, 1969, as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/MD/HP/1/68(2).]

**S.O. 4383.**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act (43 of 1951) the Election Commission hereby fixes the hours from 8 A.M. to 5 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the House of the People from Nagercoil Parliamentary constituency, to be held in pursuance of its notification No. 100/MD/HP/1/68(1), dated the 5th December, 1968.

By Order,

[No. 100/MD/HP/1/68(3).]

K. S. RAJAGOPALAN,

Secy. to the Election Commission.

### भारत निर्वाचन आयोग

#### अधिसूचनाएं

नई दिल्ली 5 दिसम्बर, 1968

एस० ओ० 4384—यतः मद्रास राज्य में के नागरकोइल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित लोक सभा के एक सदस्य श्री ए० नेसामनी की मृत्यु हो जाने के कारण लोक सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह उक्त रिक्त को भरने के लिए उक्त अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, एक व्यक्ति 11 जनवरी, 1969 से पूर्व निर्वाचित करे।

[सं० 100/मद्रास/लो० सं०/1/68 (1)]

एस० ओ० 4385—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/मद्रास/लो० सं०/1/68 (1) दिनांक 5 दिसम्बर, 1968 के अनुसरण में मद्रास राज्य में के नागरकोइल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 12 दिसम्बर, 1968 ;
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 13 दिसम्बर, 1968 ;
- (ग) अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख, 16 दिसम्बर, 1968
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो मतदान होषा—8 जनवरी 1969; तथा
- (ङ) वह तारीख जिस के पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जायगा—11 जनवरी 1969;

एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/मद्रास/लो० सं०/1/68 (2)]

एस० आ० 4386—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/मद्रास/लो० सं० 1/69 (1), दिनांक 5 दिसम्बर, 1968 के अनुसरण में लोक सभा के लिए नागरकोट्टल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले निर्वाचन के लिए 8 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान मतदान, यदि आवश्यक हो तो, होगा।

[सं० 100/मद्रास/लो० सं० 1/69 (3)]

आदेश द्वारा

के० एस० राजगोपालन,  
मन्त्रि, भारत निर्वाचन आयोग।

